



भारत सरकार का उपक्रम

A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

HINDUSTAN COPPER LIMITED

CIN No. : L27201WB1967GO1028825

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय
Registered & Head Office

ताम्र भवन TAMRA BHAVAN
1, आशुतोष चौधरी एवेन्यु
1, Ashutosh Chowdhury Avenue,
कोलकाता KOLKATA-700 019

सं. HCL/SCY/SE/ 2016

28 मई 2022

वरिष्ठ महाप्रबंधक
निगमित सेवा विभाग
बीएसई लिमिटेड
फिरोज़ जीजाबाँय टावर्स
दलाल स्ट्रीट
मुंबई 400 001
बीएसई स्क्रिप कोड : 513599

उपाध्यक्ष
लिस्टिंग विभाग
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि.
एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, ब्लॉक-जी
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051
एनएसई प्रतीक (सिंबल) : HINDCOPPER

महोदय / महोदया,

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) के निदेशक मंडल की दिनांक 28 मई 2022 को 12:30 बजे से 06:40 बजे तक आयोजित बैठक का परिणाम निम्नानुसार है:-

1. बोर्ड ने 31 मार्च, 2022 को बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), कैश फ्लो स्टेटमेंट और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के विवरण के साथ-साथ कॉर्पोरेट जानकारी, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, नोट्स जो बैलेंस शीट का हिस्सा हैं और लाभ और हानि का विवरण तथा लेखों पर सामान्य नोट्स (एकल और समेकित), को अनुमोदित किया है। कंपनी के 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का विवरण (एकल और समेकित) के साथ - साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एक्सचेंज को अलग से भेजा जायेगा।
2. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए Rs.5/- अंकित मूल्य के प्रत्येक शेयर पर Rs. 1.16 रुपये प्रति शेयर की दर से लाभांश के भुगतान की सिफारिश कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक (AGM) में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए अनुशंसा की है। लाभांश के भुगतान की तिथि AGM में लाभांश के अनुमोदन के पश्चात अलग से सूचित की जाएगी।
3. बोर्ड ने वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों के भाग के रूप में भारतीय लेखांकन मानक 8 के अनुसार "लेखा नीति और त्रुटियों में परिवर्तन" के लिए लेखांकन नीति को अपनाने के लिए अनुमोदित किया।

उपर्युक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 30 के अनुसरण में सूचना एवं रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत किया गया है।

सधन्यवाद,

भवदीय

ह0/-

(सी. एस. सिंघी)

ई.डी.(कम्पनी सचिव)